

टेनियासिस और सिस्टीसकोसिस को कैसे रोका जाए?

टेनिया सोलियम एक उपेक्षित परजीवी के कारण होनेवाली बीमारी है



Food and Agriculture Organization of the United Nations



World Health Organization



World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

स्वास्थ्य
सुविधाओं से प्राप्त दवाइयों से फीताकृमी संक्रमण का इलाज संभव है



1
टेनियासिस फीताकृमी
(टेपवर्म) मनुष्यों की आंतों में रहते हैं

शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं



सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें या उन्हें खाने से पहले पकाएं



अधपका या कच्चा संक्रमित मांस (पोर्क) खाने से लोगों में फीताकृमी विकसित होने के आसार बढ़ जाते हैं

- संचरण चक्र को समझने के लिए संख्या क्रम का पालन करें
- रोग की रोकथाम और नियंत्रण उपाय हरे रंग में दर्शित हैं

सुअर के मांस को अच्छी तरह से पकाएं
(जब तक गुलाबी रंग दिखना बंद न हो जाए)
ता के कोई परजीवी मांस में बचने न पाए



2
फीताकृमी के अंडे मल के साथ जारी किए जाते हैं। सड़क पे शौच करने से, पर्यावरण (सब्ज़ियां और जलस्रोत) दूषित हो सकता है

पर्यावरण, सूअर और अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए हमेशा शौचालय का उपयोग करें



सूअरों को संक्रमित होने से बचने के लिए बाड़े में रखें


3a

मानव सिस्टीसकोसिस फीताकृमी के अंडे निगलने से (शौचालय का उपयोग करने के बाद खराब स्वच्छता के कारण या दूषित भोजन या पानी का उपभोग करने के बाद), परजीवी पुटिका मुख्य रूप से मस्तिष्क में विकसित होंगे (दौरे और मिर्गी के कारण बनते हैं)



3b


सुअर सिस्टीसकोसिस फीताकृमी अंडे (मल या पर्यावरण में मौजूद) खाने वाले सूअर में परजीवी पुटिका मुख्य रूप से मांसपेशियों (मांस) में विकसित होती है



संक्रमण से बचाव के लिए सूअरों को टीका (वैक्सीन) लगाएं और उनका सही इलाज करें



संक्रमित मांस (पोर्क) में जो परजीवी पुटिका हो ती है वह आसानी से दिखाई नहीं देती



4



बड़े पैमाने पर संक्रमित सूअरों की पहचान मांस निरीक्षण से की जा सकती है

